

भारत सरकार  
Government of India  
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग  
Ministry of Home Affairs, Department of Official Language  
हिंदी शिक्षण योजना (परीक्षा स्कंध)  
Hindi Teaching Scheme (Examination Wing)

परीक्षा की तारीख -----  
Date of examination

पारंगत परीक्षा - नवंबर 2022

समय : 3 घंटे

प्रश्न पत्र - प्रथम

पूर्णांक : 100

1. नीचे दिए गए शब्दों में से किन्हीं 10 हिंदी शब्दों के अंग्रेजी पर्याय लिखिए और हिंदी शब्दों से कार्यालयीन हिंदी में वाक्य बनाइए । (15 अंक)

- |                  |               |                  |               |
|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 1. परिवीक्षा काल | 2. नियमन      | 3. कदाचार        | 4. उपदान      |
| 5. अधिवर्षिता    | 6. पूर्ववृत्त | 7. विवेकाधिकार   | 8. अवैतनिक    |
| 9. कार्मिक       | 10. अनुमोदन   | 11. एकमुश्त राशि | 12. कार्यसूची |

2. निम्नलिखित हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करें । (15 अंक)

- उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु वरिष्ठ संकाय सदस्यों का पैनल बनाया जाए।
- यूनीकोड के आविर्भाव से हिंदी सहित विश्व की सभी लिपिबद्ध भाषाएं कंप्यूटर पर उपलब्ध हैं ।
- ग्राहकों को और सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं ।
- महामारी के संबंध में अफवाहें न फैलाएं ।
- विगत अनुभव उत्साहवर्धक नहीं है ।
- कृपया यथास्थिति बनाए रखें ।
- इस संबंध में सामान्य नियम लागू होंगे ।
- मुहरबंद आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे ।
- निविदा सूचना में सभी नियम एवं शर्तों का उल्लेख करें ।
- चालू वित्त वर्ष के बजट में इस व्यय का प्रावधान नहीं है ।

**3. निम्नलिखित में से किन्हींदो स्थितियों पर यथा निर्देशित मसौदे तैयार करें।(20 + 20 अंक)**

- (क) श्री सुरेश वर्मा ने आर.टी.आई. के तहत इस कार्यालय से सूचना मांगी थी, मांगी गई सूचना एकत्र कर ली गई है जो 300 पृष्ठों की है। अतः श्री वर्मा से 300 पृष्ठों का फोटो कॉपी शुल्क जो 2/-रु0 प्रति कॉपी है, के हिसाब से शुल्क मांगने के लिए कार्रवाई करने हेतु टिप्पणी लिखिए एवं टिप्पणी के आधार पर श्री वर्मा को सूचित करने हेतु पत्र का मसौदा तैयार कीजिए।
- (ख) श्रीमती विनोद कुमारी ने सरकारी सेवा में आने के बाद विशाखापट्टनम को अपना गृह नगर घोषित किया था परंतु अब वे अपना गृह नगर नागपुर बदलवाना चाहती हैं। नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उनके आवेदन पत्र पर टिप्पणी तैयार कीजिए एवं इस संबंध में कार्रवाई के पश्चात जारी किए जाने वाले कार्यालय आदेश का मसौदा तैयार कीजिए।
- (ग) आपके कार्यालय के प्रवर श्रेणी लिपिक श्री गोपाल शर्मा को रु0 30,000/- कंप्यूटर अग्रिम मंजूर करने हेतु टिप्पणी तैयार कीजिए एवं संस्वीकृति आदेश का मसौदा तैयार कीजिए।

**4. निम्नलिखित में से किन्हींदो स्थितियों पर टिप्पणी तैयार करें।**

**(10 + 10 अंक)**

- (क) आपके कार्यालय में कुछ कर्मचारियों ने अपने दैनंदिन कार्य के अतिरिक्त पूरे माह शनिवार व रविवार अवकाश के दिन कार्य किया है। उन कर्मिकों को प्रतिपूरक अवकाश देने की सिफारिश करते हुए अपने कार्यालयाध्यक्ष को स्वतःपूर्ण टिप्पणी प्रस्तुत कीजिए।
- (ख) रक्षा मंत्रालय की ओर से एक अंतरविभागीय टिप्पणी राजभाषा विभाग को लिखकर यह स्पष्ट करने का अनुरोध करें कि क्या हिंदीतर भाषी राज्यों से 10वीं कक्षा तक एक विषय के रूप में हिंदी पढ़ने वाले केंद्र सरकार के कर्मिकों के लिए पारंगत प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा
- (ग) गणतंत्र दिवस के अवसर पर गृह मंत्रालय की ओर से 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम का आयोजन करने संबंधी पत्र प्राप्त हुआ है। पत्र में जारी किए गए निदेशों के अनुपालन में अपने कार्यालय में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर उक्त कार्यक्रम को आयोजित करने संबंधी प्रस्ताव के अनुमोदनार्थ टिप्पणी तैयार कीजिए।

**5. नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्दों के हिंदी पर्याय देते हुए हिंदी वाक्य पुनः बनाएं।**

**(10 अंक)**

1. समिति के अंडर कंसीडरेशन निम्नलिखित सब्जेक्ट होंगे।
2. कॉपी निदेशक केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान को फारवर्ड करें।
3. इन्फॉर्मेशन तथा कंप्लाइंस के लिए प्रेषित।
4. इस संस्थान को ग्रांट देने के संबंध में कंसिडर किया गया है।
5. कॉस्ट का कैलक्युलेट करें।